#### Scrip Code - 536264



19th January, 2023

To, BSE Ltd., P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

#### Sub: Submission of Newspaper Clipping for the publication of Outcome of Board Meeting

#### (Financial Results)

Dear Sir,

This is in reference to the captioned subject, please find the enclosed newspaper clipping of outcome of Board Meeting (Financial Results).

- 1. English Daily: "Financial Express".
- 2. Hindi Daily: "Jan Satta".

You are requested to kindly take the aforesaid information on your records and acknowledge the receipt of the same.

**Thanking You** For Tiger Logistics imited India) Harpreet Singh Malhotra Managing director DIN: 00147977

Corporate Office : D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi - 110020 (India) Tel.: +91-11-47351111 Fax : +91-11-26229671 E-mail : tlogs@tigerlogistics.in Website: www.tigerlogistics.in

A BSE Listed Entity An ISO 9001 : 2015 Certified Company

CIN# - L74899DL2000PLC105817

Branches: New Delhi + Mumbai + Pune + Chennai + Kolkata + Ludhiana + Ahmedabad + Mundra

# 26

O SBI

## STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch, Retail 1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi - 110015, Ph.: 25419177,25412977, e-mail: sbi.05169@sbi.co.in

#### "APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below mentioned Immovable property/ies mortgaged/charged to the Secured Creditor (State Bank of India), the possession mentioned below of which has been taken by the Authorized Officer of State Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis on below mentioned dates for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditor from Borrowers, Guarantors and Mortgagors. The reserve price is mentioned below and the earnest money to be deposited is mentioned respectively.

	Name & Address of	Address of Security charged	Reserve Price(RP)	Outstanding Dues	Name & Namber of	Date of E-Auction	Date / Time of
S. No.	Borrower (B)	covered under Auction (Symbolic / Physical Possession)	EMD Amount 10% of The Reserve Price	for recovery of which properties	Name & Number of Contact Person	with unlimited extensions of	On - site Inspection of
	/Guarantor/s (G) /	(Symbolic + Hyaicar + Gaaesalon)	Incremental Amount	are being sold		10 Minutes each	Property
1	Manoj Choudhary, Flat No.17, Madhaniya Jatan	Equitable Mortgage of Residential Property	₹ 40.49 Lacs	Rs 25.55 Lacs	Mr. Bagish Kumar	22-02-2023	21-02-2023
	Dehat, Opposite: Hero Motor Cycle Showroom, Distt: PILKHUWA, Hapur-245101, U.P. Also at: H.No. 88,	having site of 200 sq yds of House Nagar Nigam No. 88, Out of Khasra No. 2319 MIN,	₹ 4.05 Lac	(Intt. Calculated upto 12/01/2023	Jha M-9468100726	From 11.00 AM	11.00 AM
	Mohalla Ram Nagar, (Motor Bus Stand), District:Pilkhuwa, HAPUR-245101 U.P.	alla Ram Nagar, (Motor Bus Stand), Ram Nagar Colony, Pilkhuwa, Tehsil-	₹ 0.50 Lac	plus expenses) plus future interest and charges	M-5400100720	to 04:00 PM	to 03.00 PM
2	Manoj Kumar S/o Sh Baldev Raj. Unit /Floor No. P-	Equitable Mortgage of Residential	₹ 32.77 Lacs	Rs 32.26 Lacs	Mr. Bagish Kumar	r 22-02-2023 From 11.00 AM to 04:00 PM	21-02-2023 11.00 AM to 03.00 PM
		Property(Flat) having super builtup Area 95.132 sq. mtrs (1024 sq feet) Unit/Floor No.	₹ 3.28 Lac	1 101010000	Jha M-9468100726		
		P-14/15, Second Floor, Block-P, Park Elite Floors, Sector 75, Urban Estate Faridabad, Haryana-121006. (Symbolic Possession with Bank)	₹ 0.50 Lac	plus expenses) plus future interest and charges	M-5400100720		
3	Sandeep Kumar S/o Sh Sunil Bakshi, House No.	Equitable Mortgage of Residential Property	₹ 22.08 Lacs	Rs 57.17 Lacs (Intt.	Mr. Bagish Kumar Jha M-9468100726	22-02-2023	21-02-2023
	1987, Near Govt School, Sector-55, Housing Board Colony, Faridabad, Haryana-121005, Also at:			Calculated upto 12/01/2023 plus		From 11.00 AM	11.00 AM
	House No. 1987A, Sector-55, Faridabad, Haryana- 121005		₹ 0.50 Lac	expenses) plus future interest and charges,		to 04:00 PM	to 03.00 PM

#### TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER:

1. E-Auction is being held on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis and will be conduct-ed "On Line". The auction will be conducted through the Bank's E-Auction Tender Document containing online eauction Bid form, Declaration, General Terms and Conditions of online auction sale are available in e-Auction platform on ibapi portal https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp 2. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent inquiries re-garding the encumbrances, title of property/les put on auction and claims / rights / dues / affecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims / rights/dues.

3. Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem.

4. The sale shall be subject to rules / conditions prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

5. The other terms and conditions of the e-auction are published in the following websites https://ibapi.in Date : 18-01-2023, Place : New Delhi



## Sd/- Authorised Officer, State Bank of India ZONAL OFFICE, RECOVERY DEPARTMENT, 1ST FLOOR, 5, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001,

**E-AUCTION** 

**SALE NOTICE** 

(UNDER SARFEASI ACT 2002)

PH:011-23753827, 011-49498261, 011-49498285

E-Auction Sale of Immovable Property mortgaged to the bank under Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with rules 5,6,7,8 & 9 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002). Possession of the following property has been taken over by the Authorised Officer(s), pursuant to the Notice issued u/s 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 in the borrowal accounts mentioned below with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS" AND "WHAT IS WHERE IS" basis for realization of Banks Dues. Date and time of E-Auction:- 21st February 2023 Between 01.00 P.M to 05.00 PM with unlimited extensions of 10 minutes each.

## TIGER LOGISTICS INDIA LIMITED

#### CIN-L74899DL2000PLC105817 Regd. Office: D-174, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

## Tel-011-47351111, Fax:011-26229671,26235205,Website: www.tigerlogistics.in, Email: csvishal@tigerlogistics.in

#### Statement of Un-Audited Financial Results for the Period Ended 31st December, 2022

S. No.	PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2022 Un-Audited	Nine months ended 31.12.2022 Un-Audited	Quarter ended 30.09.2022 Un-Audited	Year Endec 31.03.2022 Audited
1.	Total Income from Operations	8,282.86	37,231.27	18,224.18	61,510.69
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,103.07	2,734.02	1,019.57	3,738.18
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,103.07	2,734.02	1,019.57	3,738.12
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	835.39	2,013.34	754.88	3,353.17
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	835.39	2,013.34	754.88	3,353.17
6.	Equity Share Capital	1057.25	1057.25	1057.25	1,057.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	6,385.70
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
- 1	1. Basic:	7.90	19.04	7.14	31.72
- 8	2. Diluted:	7.90	19.04	7.14	31.72

Regulations, 2015. The Statutory Auditor of the Company has carried out Limited Review of the aforesaid results

2. These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals laid down in Indian Accounting Standards 34 — Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principal generally accepted in India and in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended. The figures for the corresponding previous periods have been regrouped/reclassified wherever necessary, to make them 3

comparable. The above unaudited Financial Results of the Company are available on the Company's website www.tigerlogistics.in and also on the website of BSE i.e www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

For Tiger Logistics (India) Limited

Sd/-Harpreet Singh Malhotra ging Director

narpreet onign wantera
Managing Director
(DIN: 00147977)



### **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES**

Sr No	NAME OF BRANCH IFSC NO; EMD A/C Detail, TEL NO & E-MAIL	NAME OF BORROWER & GUARANTOR	AMOUNT DUES [RS /LAKHS ]	DESCRIPTION OF PROPERTIES	POSSESSION Type	NAME OF OWNER OF PROPERTY	MRP EMD	DATE OF INSPECTION OF PROPERTIES & Contact Person	O/S GOVT Dues if any
1.	GURGAON Branch IFSC Code: UCBA0001044 EMD Account no. 10440210000823 gurgao@ucobank.co.in	M/S JYOTI AUTOMOTIVE COMPONENTS PROP. SUMAN DEVI	RS. 54.76 LAKHS	RESIDENTIAL PROPERTY AT HOUSE NO. F-37/1, NEW PALAM VIHAR, CHOMA (62), PHASE-1, GURGAON, HARYANA-122017 ADMEASURING 598 SQ. FT.	SYMBOLIC POSSESSION		RS. 20.37 LAKHS RS. 2.04 LAKHS	16.02.2023 BRANCH MANAGER MR. CHAMAN RAWAT 7015806790	Not Known
1.	IFSC Code: UCBA0000009 EMD Account no. 00090210001097 connau@ucobank.co.in		LAKHS	RESIDENTIAL PROPERTY AT FLAT NO. 409, 9TH FLOOR, ARUNIMA PALACE, A-BLOCK, PLOT NO. 4/GH- 4, SECTOR-4, VASUNDHARA, GHAZIABAD, UP.201010 ADMEASURING SUPERAREA OF 2103 SQ. FT.	POSSESSION	GAUR	Rs. 80.00 Lakhs Rs. 8.00 Lakhs	BRANCH MANAGER MR. NEERAJ SINGHAL 8219785886	Not Known

OR Mr. Rohit Pahuja (Senior Manager) 9519517777

- The auction sale will be "Online E-Auction"/Bidding through e-Bikray web portal invariably. URL for Prospective buyers: https://ibapi.in and URL for Auction website https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp. Auction to be held on 21.02.2023 between 01.00 P.M to 05.00 PM as per time mentioned above against above property (IST) with unlimited extension of 10 minutes each.
- (2) All intending bidders shall register with the e-auction portal to create their user ids and passwords. Bidders have to register online by providing their KYC documents and registration fees as prescribed by Service Provider(MSTC). Once the KYC documents are verified by MSTC, the registration will be activated within a period of maximum two working days from the date of submission of all KYC documents and registration fee.
- (3) Intending bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance which is mandatory for e-bidding from MSTC Helpdesk : 033-22901004, Operation / Registration Status: ibapiop@mstcecommerce.com . Finance / EMD Status: ibapifin@mstcecommerce.com. Finance / EMD Status: ibapfin@mstcecommerce.com . Helpline e-mail ID: rranjan@mstcindia.co.in.
- (4) Intending bidders are advised to go through the website https://ibapi.in for detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction sale proceeding. Bids shall be submitted through online only in the prescribed format with relevant details.
- (6) Earnest Money Deposit (EMD) for the above property shall be deposited through Fund transfer by NEFT/RTGS only to the Wallet of Service Provider (MSTC) after registration on the portal
- (7) Acopy of the bid form along with the enclosure submitted online (mentioning UTR No) shall be handed over to the Authorised Officer/Branch Manager, UCO Bank, respective branches or soft copies of the same be forwarded by E-mail to: zonewdelhi.rec@ucobank.co.in
- (8) The bid price shall be equal to/or more than the Minimum Reserve Price (MRP) but must be in multiples of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only). Please note that the first online bid (H1) that comes in the system during the online forward auction can be one increment higher than the highest of the bids received upto last date of submission of the bids i.e. higher than the start price by one increment or higher than start price by multiple of increments. During auction, the subsequent bid that comes in to outbid the H1 rate will have to be higher than the H1 rate by one increment value or in multiple of the increment values.
- (9) The successful bidder shall have to pay 25% of the bid amount (including earnest money already paid) immediately on closure of the E-auction Sale process on the same day of the Sale in the same mode as stipulated in Clause 7 above. The balance 75% of the purchase price shall have to be paid within 15 days of acceptance/confirmation of sale by the undersigned to the successful bidder. (10) If the successful bidder failed to deposit the bid amount as per schedule noted above, the amount deposited by bidder shall be forfeited.
- (11) The EMD of unsuccessful bidder(s) will be returned on the closure of the e-auction sale proceedings.
- (12) The sale is subject to confirmation by the Bank, if the borrower/guarantor pays the bank in full before sale, no sale will be conducted.
- (13) The property will be sold on "As is where is and what is where is" basis and the intending bidder should make discreet enquiries as regards to the property of any authority besides the banks charges and should satisfy themselves about the title, extent, quality and quantity of the property before submitting their bid. No claim of whatsoever nature regarding the property put for sale, charges, encumbrances over the property on any other matter etc. will be entertained after submission of the online bid.
- (14) The undersigned has the absolute right and discretion to accept or reject any bid or adjourn/postpone/cancel the sale/modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reason.
- 15) The purchaser shall bear the stamp duties, charges including those of sale certificate registration charges, all statutory dues payable to Government, taxes and rates and outgoing both existing and future relating to the property. The sale certificate will be issued only in the name of successful bidder.
- 16) The sale is subject to conditions prescribed in the SARFAESI Act/Rule 2002 and the conditions mentioned above.

This publication is also 30 days sale notice to the above mentioned borrowers/guarantors/mortgagors under SARFAESI Act 2002.

DATE: 18.01.2023, F	PLACE: NEW DELHI
---------------------	------------------

B Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) Where service is a way of life DUDU ON OTICE FOR FAUCTION FOR SALE OF MANOVARIES PROPERTIES	
Sale of immovable property mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (No.54 of 2002) In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies	ASIATIC STOCK AND SECURITIES LIMITED (CIN: U74899UP1994PLC050968) having its Registered Office at II C/112, SECTOR 2, NOIDA, UTTAR PRADESH-201301 Applicant Company / Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company

									1 201001
lame of	Contraction of the second second	 Demand Notice Date	Earnest Money Deposit	Contraction of the	Date/Time	Property	Second second second	Name and	

Borrowers/ mortgagors/ guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "sai Borrowers'), to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below.

The said Notices have been returned undelivered by the postal authorities / have not been duly acknowledged by the borrowers/mortgagors/guarantors. \* Hence the Bank by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notice. The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers/ mortgagors/ guarantors as per the said Act. Copies of the said Notices are available with the undersigned and the said Borrowers/ mortgagors / guarantors, may, if they so desire, collect the said copies from the undersigned on any working day during normal office hours.

Against the above background, Notice is hereby given, once again, to said Borrowers/ mortgagors/ guarantors to pay to Indian Overseas Bank, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated/payable as given below under the loan & other documents. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to Indian Overseas Bank by the respective parties as below.

S. No	Name of the Borrowers/Mortgagors /Guarantors with Address	Total Outstanding as on 06.12.2022	Description of Secured Assets	Date of Demand Notice
1.	Mr. Daynish Priya Singh (Borrower ) S/o Shri Rajpal Singh R/o Sundram Building H.NoSF -1, 2 <sup>rd</sup> Floor, Flat No-1, Near Durga Mandir, J- Block, Balaji Enclave Pragana Dasna, Ghaziabad U.P201002	Rs. 22,50,370.86 (Rs. Twenty Two Lakhs Fifty Thousand Three Hundred Seventy Paisa Eighty Six Only)	Equitable Mortgage of Residential property Flat no- SF-1, 2" Floor, Plot No- J-21 & J-22, Khasra No-1455 & 1462 situated at Balaji Enclave Village Raispur, Pargana Dasna, Tehsil & Distt- Ghaziabad – 201002 (Uttar Pradesh)	08.12.2022
2.	Mr. Puhp Priya Singh (Guarantor) S/o Shri Rajpal Singh R/o A-302, Near DPS School, Nasirpur, Ghaziabad U.P. 201001	Rs. 22,50,370.86 (Rs. Twenty Two Lakhs Fifty Thousand Three Hundred Seventy Paisa Eighty Six Only)		08.12.2022
abo 4. I Ba ass cor 5. Su the 6. trai wri cor	ayable with further interest at contractua ove till date of payment. If the said borrowers/ mortgagors / guar nk as aforesaid, then Indian Overseas sets under Section 13(4) of the SARFAE hsequences of the said borrowers/ mort Further, the attention of borrowers/ mort b-section (8) of the Section 13 of the Ad a secured assets. The said Borrowers/ mortgagors / guaran insferring the secured assets, whether by itten consent of Indian Overseas B intravention of the provisions of the Act a signer under Section 29 of the Act.	antors fail to ma Bank shall proc ESI Act and Rule gagors/ guaranti ortgagors / guara ct, in respect of t ntors are prohibit y way of sale, lea ank. Any perso	ke payment to Indian Ove eed against the above se is entirely at the risks, cost ors. antors is invited to provis ime available to them to r ed under the SARFAESI A ase or otherwise without th on who contravenes or	erseas ecured its and ions of edeem ict from he prior abets

ABM INTERNATIONAL LIMITED

Reg. Office: 10/60, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi-110015

Email Id: vkgandhi@abmintl.in, Ph. No.: +91-11-41426055 CIN: L51909DL1983PLC015585, Website: www.abmintl.in

NOTICE

NOTICE OF POSTAL BALLOT published or

i n	Sr. Vo.	the Borrower and Branch	Description of Property	Status of Possession	Notice Amount	Reserve Price	(EMD) amount and Last Date and Time of Deposit of EMD	EMD Submission Account Details	of E-Auction	Inspection Date and Time	Incremental Bid Amount	
2	B T G	Borrower - M/s G.I. Traders Prop. Maya	Commercial Shop No.18 Ground Floor Block-C/74 Jasmine Market Sector-34 Noida UP in the name of Maya Goya Area - 8.50 Sq.Mts		Rs. 20,51,163.93 as on	(Rupee Twenty Seven Lakhs and Ninety Eight	Two Lakhs Seventy Nine Thousand and Eight Hundred only) 02.03.2023 till 4 P.M	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E- Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511	11:00 AM to 01:00 PM	06.02.2023 10:00 AM to 12:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only)	Ms. Anchal Nayar Mobile - 9896348777 Email - a0426@psb.co.in

#### TERMS & CONDITIONS:

The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS".

2. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/ rights/ dues/ effecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues.

3. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid.

4. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact Help Desk: +91 -7291981124,7291981125,7291981126, Helpline e-mail ID- support@bankeauctions.com and for any property related guery may contact Authorized officers during the office hours on any working day.

5. Only buyers holding valid User ID/ Password and confirmed payment of EMD through NEFT/ RTGS shall be eligible for participating in the e-Auction process.

The interested bidders, who have submitted their EMD not below the 10% of Reserve Price through online mode before 02-03-2023 at 4.00 P.M. shall be eligible for participating in the e-bidding process. The e-Auction of above properties would be conducted exactly on the scheduled Date & Time as mentioned against each property by way of inter-se bidding amongst the bidders. The bidder shall improve their offer in multiple of the amount mentioned under the column "Bid Increase Amount' against each property. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (subject to maximum of unlimited extensions of 5 minutes each). The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on closure of e-Auction process shall be declared as Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Authorized Officer/ Secured Creditor.

The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, adjusting the EMD already paid, immediately of the acceptance of bid price by the Authorised Officer and the balance 75% of the sale price on or before 15th day of sale or within such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorised Officer. In case of default in payment by the successful bidder, the amount already deposited by the offer shall be liable to be forfeited and property shall be put to re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/ right in respect of property/ amount.

The prospective qualified bidders may avail online training on e-Auction from M/s C1 India Pvt Ltd, Prior to the date of e-Auction. Neither the Authorised Officer / Bank nor M/s C1 India Pvt. Ltd., shall be liable for any Internet Network problem and the interested bidders to ensure that they are technically well equipped for participating in the e-Auction event.

9. The purchaser shall bear the applicable stamp duties/ additional stamp duty/ transfer charges, fee etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc. owing to anybody prior and future.

10. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized Officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-Auction without assigning any reason thereof.

11. The bidders are advised to go through the detailed Terms & Conditions of e-Auction available on the Website (https://www.bankeauctions.com) of M/s C1 India Pvt. Ltd before submitting their bids and taking part in the e-Auction.

## STATUTORY 15/30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Note: This is also a notice to the borrower/guarantors/mortgagors of the above loan under Rule 8(6) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 about holding E-auction for the sale of the secured assets on the above mentioned date if his /their dues are not cleared in full.

Place : Noida Date : 18-01-2023.









to change its Registered Office from "State o ... Applicant Company/Company Uttar Pradesh" to the "State of Haryana". Notice is hereby given to the General Public that Any person whose interest is likely to be the Company proposes to make application to affected by the proposed change of the the Central Government under Section 13 of the registered office of the company may deliver Companies Act, 2013 seeking confirmation of either on the MCA-21 portal alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution (www.mca.gov.in) by filing investor passed at the Extra Ordinary General Meeting of complaint form or cause to be delivered or the Company held on 12th January, 2023 to send by registered post of his /her objections enable the Company to change its Registered supported by an affidavit stating the nature of Office from the "State of Haryana" to the "State his / her interest and grounds of opposition to of Karnataka\*

Any person whose interest is likely to be affected the Regional Director, Northern Region, by the proposed change of the registered office Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd of the Company may deliver eitheron the MCA-Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor Complex, New Delhi-110003 within fourteen complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported (14) days from the date of publication of this by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within (14) fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned below: Registered office : H.No.2098, Gali No.34, Surat Nagar Phase-2, Near Daulatabad Phatak, Gurugram, Haryana-122006 For and on behalf of FJS TECH PRIVATE LIMITED

notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below :-II C/112, SECTOR 2, NOIDA, UTTAR PRADESH-201301 For & on behalf o ASIATIC STOCK AND SECURITIES LIMITED HARVIND KUMAR GUPTA (DIRECTOR DIN: 00774839 Date : 18.01.2023 Place : Noida

Form No. INC-26

Pursuant to Rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014}

Before the Central Government, Regional

Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the

Extra Ordinary General Meeting held on

13th December, 2022 to enable the company

Abhishek Pipara Dated : 18.01.2023 Director DIN : 08996985 Place : Gurugram

## "IMPORTANT"

Sd/-

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.







Authorised Officer, Punjab & Sind Bank



भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी जनकपुरी, ए-1/24, जनकपुरी, नई विल्ली-110058 दूरमाष : 011-28502400, फैक्स : 011-28502453 ईमेलः racpe.janakpuri@sbi.co.in

## अधिग्रहण सूचना [नियम 8(1) के अंतर्गत अचल संपत्ति हेतु]

2002 के अंतर्गत और प्रतिभति दिन (प्रवर्तन) निवमावली 2002 के नियम 5 के साथ प्रदित चक्त अधिनियम की धारा 15(12) -अंतर्गत प्रदल्त श्वतितयों के प्रयोगालगीत जेंक ने निम्न तालिका में खाता के समक्ष अंतिल लिंकि को मांग सचनाएं लिगत की थी जिनमें करणप्राहियों की, यहां इसमें इसके बाद निम्न तालिका में अंकित शांति का, उक्त सुचनाओं की जापि की तिथि से साद विश्वसों के अंदर प्रतिमुगलान करने को कहा गया था। ऋण्यप्रात्री रात्रि का प्रतिमुगलान करने में विफल हो चुके हैं, अतरुव एतद्वद्वारा ऋण्यप्रतियों, मारंटरों को तथा जनसाधारन को सुचित किया जाता है कि अधोहम्ताबरकर्ता ने यहां इसमें निष्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पटित ज़का सथिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त ज्ञक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न तालिका में खाता के समग्र निम्न राशि के लिये नियत तिथियों पर अधिप्रहण कर लिया है। अरणग्रही का व्यान, प्रतिभत परिसंपलियों के मोधनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8)

प्रायधानों की ओर आकष्ट किया जाता है। जरणवाडी एवं गाउंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्हारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति

का लेन-देन न करें लक्षा लम्पलि का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, प्रसा इसमें निम्नाकित अनुलार रागि तथा इस राति पर ध्याज सेतु भारतीय क्टेट बैंक के प्रथम प्रभाशचीन होगा। संपत्ति के विवरूप जिनमें साकेतिक अधिप्रहण किया गया हैं, निष्नानुसार प्रस्तुत है-

ऋणधाही(हियो) / गारंटर(री) के नाम	कंप्रवन्त्रुत संपरित का विवरण	बकावा राशि (धारा 15(2) के तहत निर्मत सूचना के अनुसार)	13(2) জুবনা কা নিমি
भी सुखा दान चरण और भीमती संतोष पत्नी सुखा दान घरण	पलेट नं. 300. एलजाईजी, डितीय तल, सेक्टर-14, फेज-11, द्वारका, गई दिल्सी-110085, क्षेत्र माप 43 वर्ग मीटर, परिसीमाये साइट प्लान के अनुसार।	७, 9,13,689/ (रुपये नी लाख तेरह हजार एह ती नवासी मात्र) 30–09–2022 के अनुसार प्लस मावी ब्याज व आकरिंमक शुरुक, सामत, इरवादि	08—10—2022 মানিয়হুস বহী হিমি 16—01—2023
थान : दिल्ली, दिनाक : 19–01	-2023	प्राधिकृत अधिकारी, भ	रतीय स्टंट बेक

	(मारतीय दिवाला और शोधन अधमता बोर्ड (रवैविङक	<b>फार्म ए</b> <b>निक उद्घोषणा</b> परिसमापन प्रक्रिया) विनिधम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत} । एलएलपी के हितधारको के ध्वानार्थ
1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	निश्वय एडवाइजरी एलएलपी
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि	25/11/2014
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति पंजीकृत है,	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एण्ड हरियाण कारपोरेट कार्य मंत्रालय
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट व्यक्ति की संख्या	AAC-9685
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और कॉर्पोरेट व्यक्ति का प्रधार कार्यालय (बदि कोई हो)	प्रेमसज नं. 1004–1006, दसवा पलोर, मर्केंटाइल डाऊस, के जी. मार्ग, कनॉट प्लेस नई दिल्ली सेन्ट्रल दिल्ली दिल्ली–110001
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के संबंध में स्वैध्धिक परिसमापन प्रारंभ तिथि	17.01.2023
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईं–मेल पता और टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या	करुणा शर्मा जी–13, फस्ट पलोर, साऊथ सिटी–2, सेक्टर–50 गुरुगम हरियाणा–122018 इंमेल आई सी : sharma.karuna@gmail.com मोबाईल : 9871145777 पंजीकरण संख्या : IBB/IPA-002/IP-N00340/2017-18/10944
8	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	16.02.2023

प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। निश्वय एडवाइजरी एलएलपी के सभी हितपारको को उपरोक्त मद स. 7 में वर्णित कार्यालय पत्ते पर अपने दावो के प्रमाण परिसमापक के पास 16.02.2023 तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विलीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावे के प्रमाण मेलेगे अन्य सभी हितझारक व्यक्तिगत, डाक

द्वारा व इलेक्ट्रानिक पहती से अपने दावे के प्रमाण मेज सकते है । दावों के झुठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

	हस्ता/-
	करुणा शर्मा
दिनांक : 17.01.2023	इन्सॉल्वेसी प्रोफेशनल
स्थान : गुरुग्राम	पंजीकरण संख्या : IBBNPA-002/IP-N00340/2017-18/10944 sharma.karuna@gmail.com; मोबाईल : 9871145777
2	जी—13, फर्स्ट फ्लोर, साऊथ सिटी—2, सेक्टर—50 गुरुग्राम हरियाणा—122018

	प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3)	) देखें
	ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआर	(टी-2)
प्रथम तल, एससीअ	गे 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ त	
	वाद सं. ओए/467/2020	
अधिनियम की धा	रा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली र	न्वायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली,
1993 के नियम 5	के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन	Exh. No. 15439
सेवा में,	इंडियन बैंक <sup>बनाम</sup> अरशद जग	

अघ्याय XXI के भाग I के अन्तर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन [कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) एवं कम्पनीज (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियमन, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

फार्म संख्या युआरसी.2

- कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनूसरण में एतदुद्वारा सचना प्रदान की जाती है कि इसके पंद्रह दिनों के बाद लेकिन इसके बाद जीस दिनों की समाप्ति से पहले केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) में रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि एलकोपोप स्प्रिट्स एलएलपी एक सीमित देयता साझेदारी फर्म ("एलएलपी") को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अघ्याय XXI के भाग l के अन्तर्गत सीमित शेयर्स द्वारा एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जा सके।
- 2. कम्पनी के मुख्य उदेश्य निम्न प्रकार हैं:

एलएलपी का व्यवसाय जिसमें विनिमार्ण, डिस्टिलिंग, बॉटलिंग, लेबलिंग, केनिंग, संरक्षण, विपणन, बिक्री, आपूर्ति, आयात, थोक, फ्रैन्चायजिंग, क्लिरियरिंग और फॉरववार्डिंग एजेन्ट, वितरक, आनलाइन खुदरा बिक्रेता, बीयर, शराब, व्हिस्की, जिन, रम, ब्रांडी, टकीला, भारत में निर्मित बिदेशी शराब अथवा अन्य स्प्रिट सहित सभी प्रकार की शराब और अन्य किसी मादक या गैर मादक पेय के एग्रीगेटर्स होंगे।

कम्पनी के प्रस्तावित मौसौदे की मैमोरन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेसन की एक प्रति का निरीक्षण ए, ग्राऊन्ड फ्लोर, डीएलएफ गलेरिया, मयूर विहार, फेस 1 नई दिल्ली 110091 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।

एतदद्वारा सचना प्रदान की जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने विरोध की सूचना लिखित में रजिस्ट्रार केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) इन्डियन इन्सीट्यूट ऑफ कारपोरेट कार्यकलाप (आईआईसीए), प्लॉट न॰ 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गूड़गाँव (हरियाणा) पिन कोड 122050 को इस सूचना प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, साथ में उसकी एक प्रतिलिपि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजनी होगी।

आज दिनांक 18 जनवरी, 2023

3.

आवेदकों के	नाम
1. विदूर रिव	लान
<b>2</b> . राजेश रिव	लान

#### चितरंजन पार्क शाखा te ate sfor BOI 🗙 I-1801, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019

#### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्) [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमुत्तिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रति भति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन एंड के. (प्रोप, श्री रविन्द्र नाथ यादव) को एक मांग सचना दिनांकित 25-10-2022 को जारी किया था जिसमें सचना में उल्लेखित राशि रु. 5.04.597.10 (रुपये पाँच लाख चार हजार पाँच सौ सत्तान्ये और पैसे दस) और भविष्य का व्याज, सभी लागत, प्रभार एवं अन्य आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था। कर्जदार राशि का प्रतिभगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2023 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, चितरंजन पार्क शाखा, 1-1801, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली--110019 के प्रभार वास्ते रु. 5.04.597.10 और भविष्य का ब्याज, सभी लागत, प्रभार एवं अन्य आकस्मिक खर्च इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रायधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

#### अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एफ–190, सैक्टर डेल्टा-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बद्ध नगर (यू.पी) - 201308 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रविन्द्र नाथ यादव (कर्जदार) के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर – पश्चिम में — प्लॉट नं. 209, दक्षिण—पूरब में — 12मी. चौडा रोड, उत्तर — पूरब में — प्लॉट नं. 191, दक्षिण—पश्चिम में —प्लॉट नं, 189

## जनसता

## 19 जनवरी, 2023

## उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक आपकी उम्मीद का खाता (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमालपुर, काजी सराय,

हरहुआ, वाराणसी, उ.प्र.-221 105.

## अचल सम्पत्ति के लिये कब्जा सुचना

एतडारा सचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनगंठन तथा प्रतिभति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में, अधिकृत प्राधिकारी ने यहां इसके पश्चात उल्लिखित प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथियों पर कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पनर्भगतान करने को कहते हुए एक मांग सचना जारी की थी।

कर्जदारों हारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतहारा अधोलिखित कर्जदारों को को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताश्वरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है, और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मख उल्लिखित सांश तथा उस पर ब्याज के लिए उल्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभुत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम	शाखा का	खाता का नाम	ऋणधारक∕गार्स्टर का नाम	मांग सूचना	कब्जा सूचना	मांग सूचना तिथि को
सं	नाम		(सम्पत्ति के स्वामी)	तिथि	की तिथि	बकाया गरिंग
đ	इलाहाबाद	135206000002157	राजू यादव (कर्जदार) तथा राजू कल्नौजिया (सह-कर्जदार)	04-07-2022	13-01-2023	₹. 272105/-

प्रभारित/बंधक संपत्ति का विवरण ( अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भाग)ः संपत्ति एनएच-158, नईबस्ती कीदगंज, परगना और: तहसील- सदर, जिला-इलाहाबाद का सम्पर्ण भाग, पंजीकृत पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या 543, पृष्ठ संख्या- 327/352, दस्तावेज संख्या- 2150, दिनांक 04/07/2007 उप निर्वधक-2, डलाहाबाद, उ090 के कार्यालय में, माप 33.33 वर्ग गज क्षेत्रफल / 27.87 वर्ग मीटर, सीमाएं: पुर्वः बिके हुए घर का हिस्सा ( अशोक यादव), पश्चिमः मिश्री लाल जायसवाल का घर, उत्तर : मिश्री लाल निषाद का घर, दक्षिण : प्रमोद यादव का मकान।

2	इलाहाबाद	135206000002449	कार्तिकेव कुमार (कर्जदार) तथा कुसुम देवी	04-07-2022	13-01-2023	₹. 298133/-
			(सह-कर्जदार)			

प्रभारित/बंधक संपत्ति का विवरण (अग्रलिश्वित संपत्ति का समस्त भाग)ः मकान नंबर-अराजी नंबर- 61, मौजा-हिंदूपुर परगना-अरेल और तहसील-करछना, जिला-इलाहाबाद, बही नंबर-1, जिला नंबर 7679, पृष्ठ संख्या के आधार पर ठीक से मिलकर के सभी भाग और पासंल .- 33 से 48, श्री क्रमांक- 7620. दिनांक 25/04/2022 कार्यालय तहसील-करछना, इलाहाबाद, उ.प्र. क्षेत्र मापन- 228 वर्ग मीटर, सीमाः पुर्वः मकान प्लॉट फुलवती, पश्चिम : आराजी का शेष भाग, उत्तरः हिंदुपुर बसरिया लिंक रोड, दक्षिण: अस्पताल की सीमा।

3	इलाहाबाद	135206000002467	शिव बाबू (कर्जदार) तथा उर्मिला देवी (सह-कर्जदार)	04-07-2022	13-01-2023	₹. 180025/-
			(सह-कज्यपार)		<u> </u>	

प्रभारित/वंधक संपत्ति का विवरण (अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भाग): आराजी नं.-1, बसही, परगना-औरल, तहसील-करछना, इलाहाबाद पर प्लॉट का समस्त भाग, वही नंबर-1, जिला नंबर-2135, पेज नंबर-371-386., क्रमांक - 5637 दिनांक 12/11/2010, मौजा-वसही, परगना-अरैल, तहसील-करछना, इलाहाबाद का सम्पूर्ण भाग, सीमाः पूर्वः प्रेम चंद्र केशरवानी का भखंड, पश्चिमः अब्दल का घर, उत्तरः भीरपर-बाशी लिंक रोड, दक्षिण : भूमि विक्रेता।

> चीरेन्द्र विक्रम सिंह (अधिकृत प्राधिकारी) उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

第/~

T ΤΛΤΛ टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत पता : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई—400013, शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी–36, प्रथम एवं द्वितीय तल

लाजपत नगर – पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली–110024

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के

प्रतिमुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमुति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के

#### Criminal Courts, Ludhiana

The Court Of Ms. Divya Sharma JM Ludhiana date: 20-02-2023 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Sher Singh Kharade

CNR NO: PBLD03-031923-2019 Publication Issued To: Sher Singh Kharde Address- R/o Ward No 13 The, Sirali Post Deepgaon Kalan Harda Madhya Pradesh 2. Maya Bai Korku R/o House No 186 Ward No 13 Deepgaon Kalan Harda Hoshangabad 461441 Madhya Pradesh 3. Rakesh Lahore R/o House No 245 Ward No 27 Lokmanya Tilak Harda Hoshangabad 461331 Madhya Pradesh Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 20-02-2023 at 10:00 a.m. or within 30 day sfrom the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

#### "प्रपन्न स'. आईएनसी—26" (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में| कंपनी का रजिस्टीकत कार्यालय एक राज्य से दसरे

राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समझ (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

#### इनकैसेबल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 484, भूतल

स्थित उद्योग विहार, फेस-V, गुरुप्राम, हरियाणा--122016 में रिश्वत है .....आवेदक कंपनी / कंपनी

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" त्ते 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 12 जनवरी, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्टीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण मवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 पत्ते पर पंजीकृत ठाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी मेजेगा। रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट नं, 464, भूतल स्थित उद्योग विहार, फेस–V, गुरुग्राम, हरियाणा–122016

सुपरसिटी डेवलपर्स प्रा. लि., सीआईएन न. U45201DL2006PTC146951, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6 भारती कॉलोनी, प्रथम तल, प्रीत विहार, मेट्रो पिलर नं. 73 के सामने, विकास मार्ग, नई दिल्ली -110092 में इसके निदेशकों के माध्यम से

(3) श्री दीपक मिगलानी पुत्र श्री ओ.पी. मिगलानी, निवासी सी-82, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 (निदेशक प्रतिवादी नं. 2)

(4) श्रीमती मीनू मिगलानी पत्नी श्री दीपक मिगलानी, निवासी सी-82, प्रीत विहार, विल्ली 110092 (प्रतिवादी नं. 2 के निदेशक) सम्मन

जबकि, ओए/467/2020 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 22.12.2022 को प्रस्तुत किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 29,61,996/- के ऋण की वसुली के लिए आपके विरूख दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजुर नहीं की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है:

(IV) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सुजित किया गया है तथा∕अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक डारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिकी, पट्टा अधवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे:

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित थारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने. उसकी प्रति आवदेक को महैया कराने तथा दिनांक 30/05/2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्वेश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 07.01.2023 को दिया गया। अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेत् अधिकृत दिनांक : 17.01.2023, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

#### मांग सूचना

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत। उक्त नियमावली के नियम 3 य साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लि (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें अर्थात सूचनाओं में ऋणकर्ता(ओं) को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सुचना(ओं) में अंकित राषि का प्रतिभगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पनः सुचित किया जाता है कि यहां इसमें निम्न उल्लेखित धनराषियों का, मांग सचना की तिथि(यों) से लेकर के भुगतान की तिथि तक आकलित भावी ब्याज के साथ, इस सूचना के प्रकाषन से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। ऋणकर्ता(ओं), मांग सूचना की तिथि के अनुसार देयराषि तथा ऋण राषि के प्रतिभुगतान के प्रति प्रस्तावित प्रतिभूति के विवरण निम्नानुसार हैं:--

ऋणकर्ता(ओ) / गारंटर(रो) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री भूपेश शर्मा दीक्षा प्रोडवशन श्री कमल किशोर शर्मा, श्रीमती रूबी शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. 946864 और 948965)	12—जनवरी—2023 प्रोस्पेक्ट न. 946864 रु. 31,26,648.00 / — (रुपये इकतीस लाख छब्बीस हजार छह सौ अड़तालिस मात्र) और प्रॉस्पेक्ट नं. 948965 रु. 1,01,501.00 / — (रुपये एक लाख एक हजार पांच सौ एक मात्र)	सपत्ति के समस्त वह भाग तथा अश : जो तृतीय तल संपत्ति संख्या ई–8ए/4 क्षेत्र माप 233 वर्ग गज, जो कृ ष्ण नगर के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, ग्राम घोंडली के क्षेत्र, इलाका शांदारा, दिल्ली में स्थित हैं।
श्री माया मंडल श्री राजू मंडल (प्रॉस्पेक्ट नं. 940659)	12—जनवरी—2023 रु. 17,01,659.00/— (रुपये सत्रह लाख एक हजार छह सौ उनसठ मात्र)	सपत्ति के समस्त वह भाग तथा अश : जो प्लॉट नंबर—डी—93, कॉरपेट क्षे. 550 वर्ग फुट, पलैट नंबर—एफएफ—2 आगे मध्य दिशा में एसएलएफ वेद विहार लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201001 में स्थित हैं।
अी मोनू सेनी ,श्रीमती लक्ष्मी, मोनू सैनी फरोथ, राजपाल फ्रूट,, श्री राजपाल सैनी, श्री सचिन सैनी (प्रॉस्पेक्ट नं. 961527)	12—जनवरी—2023 रु. 15,40,242.00 /— (रुपये पंद्रह लाख चालीस हजार दो सौ बयालीस मात्र)	सपत्ति के समस्त वह भाग तथा अश : जो खसरा सख्या 4225/17 में समाविष्ट, प्लॉट क्षेत्राधिमापन 504 वर्ग फुट के साथ, आनंद नगर, नगर निगम के अंदर, रथधाना रोड, सोनीपत, 131001, हरियाणा, भारत में स्थित हैं।
श्री समीर श्रीमती सविता रानी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10109525)	12—जनवरी—2023 रु. 11,24,737.00 /— (रुपये ग्यारह लाख चौबीस हजार सात सौ सैंतिस मात्र)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश : जो प्लॉट नंबर डी—971, भूमि क्षेत्र 350 वर्ग फुट, प्रथम तल आगे एमडीएल प्राइवेट नंबर 102, ब्लॉक—डी इंद्रप्रस्थ आवास योजना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201001 में स्थित हैं
रूप में ऋणकर्ताओं के जोखिमों, परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई 30 / 30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शि करनाल, हरियाणा–132001 तथा	लागतों एवं परिणामों पर उक्त अधिनियम की धारा कर सकती है। अन्य विवरणों के लिए कृपया प्राधि वाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप	ने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल संपू 13(4) तथा यथालागू नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभू कृत अधिकारी से शाखा कार्यालय में संपर्क करें : भूखंड र 1, मोती नगर, नई दिल्ली तथा एससीओ—408, मुगल केनात 6, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर—201301 तथा/अथवा निगमि

ল কা এবাক (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मांग सूचना की तारीख

कब्जा सूचना की तारीख

31-10-2022

16-01-2023

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, नोएडा, एसएच—12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सेन्टर—गामा— |, ग्रेटर नोएडा—201308,

जिला गौतम बुद्ध नगर, ई--मेंल : cs8290@pnb.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्तियों हेत्)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिमुतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभुति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक का प्राधिकृत

अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

निम्नलिखित कर्जदारों 🖊 गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें 🛛 उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर

उधारकर्ताओं 🖉 गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि

अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन--देन न करें तथा सम्पत्ति के

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत उपलब्ध समय सीमा की ओर

अचल सम्पत्तियों का विवरण

**TIGER LOGISTICS INDIA LIMITED** 

CIN-L74899DL2000PLC105817

Regd. Office: D-174, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.

Tel-011-47351111, Fax:011-26229671,26235205, Website: www.tigerlogistics.in, Email: csvishal@tigerlogistics.in

Statement of Un-Audited Financial Results for the Period Ended 31st December, 2022

सम्पत्तियों का विवरण

तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित

पंजाब नैशनल बैंक

भगतान करने को कहा गया था।

आकर्षित किया जाता है।

- 02166771000682

दिनांक 16.01.2023, स्थान : ग्रेटर नोएडा

कर्जदार / गारंटरों

के नाम

.....भरोसे का प्रतीक

उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा** ले लिया है।

साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब नेशनल बैंक** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

श्री रविंदर सिंह राघव पुत्र साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश

स्वर्गीय श्री गजराज सिंह जोकि रिहायशी सम्पत्ति क्षेत्रफल 100 वर्ग गज अर्थात

(उधारकती), ऋण खाता सं. 83.61 वर्ग मी., शामिल खसरा नं. 1158, गाँव बरोला,

हार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, फेज—IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा। हस्ता. 🗸 – प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड स्थान : दिल्ली, दिनांक : 19–01– 2023

punjab national bank

बकाया राशि

(क्त. में)

₹17.81.129.87 प्लस भविष्य का

(Rs in Lakhs)

ब्याज, लागत इत्यादि सहित

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

## "प्रपत्र स. आइएनसी-26"

क्षेत्रीय निदेशक के समझ उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी अधिनियम 2013 (निममन) निवम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में और.

## एस.बी. फैबटेक्स प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 122 / 4 – एव प्लॉट नं. 57, शंकर नगर, दिल्ली—110051 में स्थित है याचिकाकत

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन दाखल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी सेत्र दिस्सी" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **16 जनवरी, 2023** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम झपान में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभाषित होता है तो बह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें जनके दित का प्रकार और चसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय गिदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हे या सुपुर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी मेजेंगे।

122/4 - एच प्लॉट नं, 57, शंकर नगर, दिल्ली--110061 इंशिया आवेदक की और से एस.बी. फैबटेक्स प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./

तिथि : 18.01.2023

स्थान : दिल्ली

विक्रयार्थ ई—नीलामी सचना एतदुद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता तथा∕सह–उधारकर्ता, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों ⁄ प्रतिनिधियों (उधारकर्ताओं) को विशिष्ट रूप में सचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि

तिथि : 19.01.2023

रथान : इलाहाबाद

(टीसीएचएफएल) के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकार द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 09–02–2023 को ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ताओं की ओर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मुल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थेगन∕समापन के अभाव में, उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति∕संपत्ति का विक्रय ई–नीलामी द्वारा उक्त 09–02–2023 को अप. 2. 00 बजे कर दिया जाएगा। ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा, टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के पास 08–02–2023 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा के पते, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी–36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर – पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली–110024 पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्ति/अचल संपत्ति का विक्रय, यहां इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार ''जैसी है जहां है अवस्था'' पर आधारित होगा

सं. सं. एवं शाखा			आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
1. TCHHL0 3500001 0007380 8	0001 गोयल, श्रीमती हेमलता गोयल पर्त्न 7380 श्री अतुल गोयल		रु. 2,80,00,000 ∕ – (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र)	रु. 28,00,000 / (रुपये अट्टाईस ल मात्र)
सामान्य सुविधाअं	मलिका जैन, सौ छियासठ मात्र) की 361 श्री मनदीप 10236207 के अंत जैन रु. 3,60,796 / – (रु.	कार परिसीमित हैः उत्तर– भूखंड पये बत्तीस लाख इकहत्तर हजार त एक राशि आपके द्वारा अनुबंध संर ार्गत देय एवं भुगतानयोग्य है और पये तीन लाख साठ हजार सात सँ	सं. 10 व 11, दक्षि ोन रु. ड्या 29,50,000 / - (रुपये उनतीस लाख	ण— सड़क 1: - 2,95,000 / (रुपये दो ब लाख पिचान्
294	10663614 के अंतर्गत	रक राशि आपके द्वारा अनुबंध संख्य देय एवं भुगतानयोग्य है, अर्थात् कु ये छत्तीस लाख बत्तीस हजार एक बासठ मात्र)  18–06–2021	ल मात्र)	हजार मात्र
		 18–06–2021 ग्रॅवर नं. 7, तल सं. 5, फ्लैट नं. 0	)3) के समस्त वह	भाग त

नीलामी में, जनसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी बोली(लियां) जमा⁄प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) को एतदद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर भावी ब्याज के साथ कुल बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अंतिम अवसर का लाभ उठाकर भुगतान करने में विफल रहने पर अचल संपत्ति को अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा। ई–नीलामी उस स्थिति में भी रोक र्द जाएगी, यदि ब्याज एवं लागतों (विक्रय की लागत सहित) के साथ उपर्युक्तानुसार देय राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' को भुगतान कर दी जाती है अथवा अधिकारों की संतुष्टि हेतु इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण व इसके ब्याज एव लागतों की राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया गया है।

कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति. जो इस विक्रय के संबंध में कोई भी कार्य–दायित्व निभा रहा है. यद्यपि वह कार्य–दायित्व को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ही क्यों न निभा रहा हो, वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई अचल संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर सकता।

विक्रय जो है, वह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित भावी शर्तों के अधीन होगाः ई–नीलामी पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 09–02–2023 को अप. 2.00 बजे से लेकर के अप. 3.00 बजे तक 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ संचालित की जाएगी।

नियम एवं शतेः (1) यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी व अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुई ⁄ होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथवा बोलीदाता से संबंधित, किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति अचल संपत्ति को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। (2) अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000 / − (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) संपत्ति के क्रयार्थ जमा∕प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि ″टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.'' के पक्ष में आहरित शाखा पते पर भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी व उपरांत असफल बोलीदााओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम ज धराज के भुगतान हेतू कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतू विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली क स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा हो। (6) अभिलेखित कारणों के लिए यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें / उसे समाप्त कर दें। (7) अचल संपत्ति का अवलोकन जो है वह पूर्व नियुक्ति के साथ 03–02–2023 को 1 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच किया जा सकता है। (8) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रयराशि / बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, औ यह राशि 'प्राधिकत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी. और यह राशि जमा करने में चक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतू रख दिया जाएगा। (9) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रयराशि की शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति व विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वें दिवस के बाद आनेवाले प्रथम कार्यालय दिवस में करना होगा। (10 ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/विक्रय हेत् रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा औ चककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। (11) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किर्स भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेतू संपत्ति हैः शून्य हैं। दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति हेतू अग्रसारित किया गया है तथा इसकी प्रकृति एवं मुल्य के कोई भी अन्य ज्ञात विवरण : शुन्य है। इच्छक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं– सपंदित कर, विद्युत इत्यादि के बकायों सहित संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच–पड़ताल कर लें। (12) किसी अन्य विवरण के लिए अथवा ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित बोलीदातागण जो ' वे सेवा प्रदाता, सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तृतीय तल, भूखंड सं. 68, सेक्टर–44, गुड़गांव हरियाणा-122003, मोबाइलः 8866682937 एवं दूरभाष : 7291981124/1125/1126, ईमेल आईडी: gujarat@clindia.com/ support@bankeauctions.com अथवा श्री मनीष बंसल को उनकी ई-मेल आईडी: Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नं. 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को व्हाट्सऐप नंबर – 9999078669 पर प्रेषित करें। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लाग होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता दारा भगता-किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भूगतान को स्वामी∕उधारकर्ता(ओं) के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपनी के पास जमा⁄प्रस्तुत करनी होगी। (14) उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक https://bit.ly/3kmBigl का संदर्भ ग्रहण करें। (15) कृपया लिंक https://www.tatacapital.com/property-disposal.html को भी देखें। कुपया नोट करें – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विक्रय/नीलामी के लिए उक्त वर्णित नीलामकर्ता साझीदार के अलाव किसी अन्य ब्रोकर / एजेंट को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छक पक्षकारों को इस विषय के संबंध में पछे जानेवाले समस्त प्रश्न एवं पछताछों के लिए केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। स्थान : दिल्ली

	नक लिए और उनकी और स बनोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
	हस्ता/-
	अभिश्वेक पिपरा
तिथि : 18.01.2023	निदेशक
स्थानः गुरुग्राम	ढीआईएन : 08996985

## प्ररूप संख्या आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

:মীস एशियाटिक स्टॉक एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

(CIN: U74899UP1994PLC050968) जिसका पंजीकृत कार्यालयः ॥ सी / 112, सैक्टर 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 में हैं, के मामले में

#### ....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 13 दिसंबर 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पष्टि की मांग की गई है ।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एगसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दुसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी मेर्जे ।

॥ सी / 112, सैक्टर 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

NEW MARKET AND A REPORT OF A DESCRIPTION	ड सिक्योरिटीज लिमिटेड
Survive a const	हस्ता/-
0	हरविंद कुमार गुप्त
दिनांक : 18.01.2023 स्थान : नोएडा	(निदेशक डीआई एन : 0077483
4414 : 41951	्डाआइएनः 007748;

Γ	प्रतिवा	देयों	ंकी	বাঁছি	त
l	उपस्थिति	के	लिये	उद्घो	षणा
L	(आदेश 5, नागरि	रेक प्रहि	क्रेया संहित	ता का निर	यम <u>२</u> ०)
L	उमेश कुमार, सिषि कोर्ट नं. 7	थेल ज 7 जाने	ज−01, द ज्व कोर्ट व	क्षिण पूर्व, फॉगलैक्स	साकेत,

नई दिल्ली–17 के न्यायालय में

सट नं. सीएस एससीजे J9/2022 भारतीय स्टेट

बैंक-वादी

विरूद्ध

केवल कृष्ण माथुर - प्रतिवादी

केवल कृष्ण माथुर, पुत्र एन.बी.माथुर ए-1

रणजीत होटल, नई दिल्ली, दिल्ली–110002 साथ हीं

जी-48 मीरदर्द रोड, रणजीत होटल के निकट, दिल्ली

-110002, साथ हीं : फ्लैट नं. ए-8, प्लांट नं. बी-

15, डीएलएफ दिलशाद एक्स्टे II गाजियाबाद

उ.प्र०-201005, साथ ही : फ्लैट नं. ए-8/बी-1/52

एलआईजी, प्रथम तल, स्वेता अपार्ट. डीएलएप

कालोनी, दिलशाद गार्डन एक्स्टें-II, गाजियाबाद

2. हिमांश माथर, पुत्र के. के. माथर ए-1, रणजीत

होटल, नई दिल्ली, दिल्ली-110002 साथ हीं: जी-48

मीरदर्द रोड, रणजीत होटल के निकट, दिल्ली

110002. साथ हीं : फ्लैट नं. ए-8, प्लांट नं. बी-15

डीएलएफ दिलशाद एम्स्टे II गाजियाबाद, उ.प्र०-

201005, साथ ही : फ्लैट नं. ए-8/बी-1/52

एलआईजी, प्रथम तल, स्वेता अपार्ट. डीएलएप

सेवा में.

उ०प्र0 201005

पता : बी—40, सैक्टर—14, नोएसा, उत्तर प्रदेश 201301

रविंदर पाल सिंह

दीआईएन : 01752516

(निदेशक)

"प्रपन्न सं. आईएन	THI-26"
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के निय	
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय म	एक राज्य से दुसरे
राज्य में अंतरित करने के लिए	समाबार पत्र में
प्रकाशित किया जाने वाल	

केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

#### एफजेएस टेक प्राईवेट लिमिटेड

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एच. नं. 2098, गली नं. 34, सूरत नगर फेस-2, नियर दौलताबाद पाठक. गुरुग्राम्, हरियाणा–122006 में स्थित है

- .....आवेदक कंपनी / कंपनी आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्टीकत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 12 जनवरी, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की
- मांग की गई हैं। कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का
- प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे उल्लिखित
- रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एच. नं. 2098, गली नं. 34, सूरत नगर फेस-2, नियर दौलताबाद पाठक. गुरुग्राम्, हरियाणा–122006 उनके लिए और उनकी और से एफजेएस टेक प्राईवेट लिमिटेड हरता / अभिषेक पिपरा तिथि : 18.01.2023 निदेशक

S. No.	PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2022	Nine months ended 31.12.2022	Quarter ended 30.09.2022	Year Endec 31.03.2022
NO.		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	8,282.86	37,231.27	18,224.18	61,510.69
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,103.07	2,734.02	1,019.57	3,738.18
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,103.07	2,734.02	1,019.57	3,738.12
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	835.39	2,013.34	754.88	3,353.17
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	835.39	2,013.34	754.88	3,353.1
6.	Equity Share Capital	1057.25	1057.25	1057.25	1,057.2
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	6,385.7
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	7.90	19.04	7.14	31.72
	2. Diluted:	7.90	19.04	7.14	31.72

- have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 17th January, 2023 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditor of the Company has carried out Limited Review of the aforesaid results.
- 2. These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals laid down in Indian Accounting Standards 34 — Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principal generally accepted in India and in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended.
- 3. The figures for the corresponding previous periods have been regrouped/reclassified wherever necessary, to make them comparable.
- The above unaudited Financial Results of the Company are available on the Company's website www.tigerlogistics.in and also on the website of BSE i.e www.bseindia.com where the shares of the Company are listed. For Tiger Logistics (India) Limited

Place: New Delhi Date: 17.01.2023

#### हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

S()

दिनांक : 19-01-2023

Sd

Harpreet Singh Malhotra

Managing Director

(DIN: 00147977)

कालोनी, दिलशाद गार्डन एक्स्टें-Ⅱ, गाजियाबाद **उ**0प्र0 201005 प्रेम सिंह, पुत्र भगवान, बी-99, ब्लॉक ए+बी+सी. (किराड़ी), बवाना, दिल्ली-110039 साथ हीं : एस.के. गुरु तेग बहादुर हॉस्पीटल, दिल्ली-110095, साथ ही : ग्राम एवं पोस्ट भट गाँव सोनीपत, हरियाणा-131022 जैसा कि आप समन की सेवा का जान बूझकर अनदेखी कर रहे हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि आप अंतिम निपटारे के लिये निर्धारित दिन 16.02.2023 को मामले में अपना बचाव नहीं करते हैं तो इसकी सुनवाई तथा निपटारा एक पक्षीय रूप गं की जाएगी। मेरे हाथ से तथा न्यायालय की मुह लगाकर आज 20.12.2022 को दी गई।

> सिविल जज सिविल जज- 01 (दक्षिण पूर्व साकेत कोर्ट, नई दिल्ली-1

www.readwhere.com

दीआईएन : 08996985

स्थान : गुरुग्राम